

ASIA PACK LIMITED

EIN : L74950RH 985PLC06327

RECISTERED OFFICE 3rd Floor, Miral Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301

1800 120 3699

www.asiapackitd.com

Ref.: APL/SEC/BM/2023-24 Date: 15th August, 2023

Corporate Relationship Department,

BSE Limited,

25th Floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai, Maharashtra, India, PIN-400001

Email: corp.relations@bseindia.com, corp.compliance@bseindia.com

Scrip Code: 530899

Dear Sir / Madam,

Subject: Submission of unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2023, published in Newspaper

Ref: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to above, please find enclosed the copy of newspaper advertisement dated 15th August, 2023, which was published in Newspapers Financial Express (in English) and Jai Rajasthan (in Hindi) edition with regard to the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2023 duly reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2023.

You are requested to take the same on records, upload at your website & intimate the same to the members of the Stock Exchange.

Thanking You,
Yours faithfully,
For **Asia Pack Limited**

Name: Lakshit Samar

Designation: Company Secretary and Compliance Officer

ICSI Membership No.: A64788

Encl.: a/a

लाल, किशन सिंह डॉ. हर्ष

बुनकर, डॉ. धाबाई लाल पटेल,

कमलेश खटीक, राजू दयाल

6.00 बजे तक 18-08-2023 को प्रातः 11.00 बजे

आदि मौजूद रहे

प्रो. सुनीता मिश्रा, कुलपति ने किया कला प्रदर्शनी Nex.....G! 2023 का अवलोकन



उदयपर. 14 अगसत। जयपर और दश्य कला विभाग ु नलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कला प्रदर्शनी Nex....G! 2023 का अवलोकन प्रो सनीता मिश्रा. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, श्रीमती अल्का मूंदडा, प्रदेशाध्यक्ष महिला मोर्चा, भाजपा. श्रीमती शांता प्रिंस. अध्यक्ष. उदयपुर शहर, उद्योग एवं व्यापार पकोष्र कांग्रेस ने किया।

कलपति महोदया ने यवा कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यवा कलाकार को अपनी कला यात्रा में सृजनरत रहना चाहिए। कला एक साधना है जिसे कलाकारों को अनवरत जारी रखते हए अपनी कला यात्रा को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस अवसर पर् विभागाध्यक्ष डॉ धर्मवीर वशिष्ट ने कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि उदयपर संभाग के यवा कलाकार निरंतर सृजनरत है। कलाकारों को कला शिक्षा के क्षेत्र में

प्रकाश सालवी. दीपिका पाराशर भवानी सिंह, वर्षा झाला, नैना सोमानी , कपिल शर्मा, अब्दुल शेख, अमित सोलंकी, जगदीश सालवी, मुक्ता शर्मा, पुरुषोत्तम, प्रवीण बरडा, जयेश सिकलीगर, समन जोशी. उदय लाल. प्रभ लाल गमेती, कुमुदिनी भरावा, शहनाज मंस्री, तस्लीम जमाल, मोहित सुथार, रजत शर्मा, कालिया पाटीदार और यश खत्री की कलाकतियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर प विभाग के सभी संकाय सदस्य डॉ दीपिका माली, डॉ. रश्मि सिंह, डॉ. सबीहा खान, मीनाक्षी असावरा मोहन मृदङ्ग,बसंत वैष्णव,गजेंद्र

कमावत आदि उपस्थित थे।

भी पोत्साहित किया जाना चाहिए।

विद्यालयों में कला शिक्षा हेत् कल

शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रही

इस कला प्रदर्शनी में सोनम

फलवरिया, डिंपल चांडात, ज्योतिका

राठौर, दिलीप डामोर, सूरज सोनी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एमपीवी श्रृंखला की पूरी तरह नई टोयोटा रुमियन - प्रतिष्ठा वाली फैमिली कार पेश की

दिनांक : 15 अगस्त, 2023



उदयपुर, 14 अगस्त। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने अपनी नवीनतम पेशकश, ऑल न्यू टोयोटा रुमियन लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक नई कॉम्पैक्ट एमपीवी है जो स्टाइलिश और पीमियम नई पारिवारिक कार है और स्थान के मामले में बेजोड़ है तथा उत्कृष्ट ईंधन दक्षता का दावा करती है। भारतीय एमपीवी सेगमेंट में पहले से ही अग्रणी, इस सात-सीटर के लॉन्च से बाजार में टोयोटा की उपस्थिति को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। टीकेएम के प्रबंध निदेशक और चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) मासाकाजु योशिमुरा ने कहा, टोयोटा में, हम विश्व स्तरीय वाहन देने से कहीं आगे जाने में विश्वास करते हैं। गहरी जडों वाली हमारी संस्कृति ऐसे उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने की है जो बेजोंड़ मूल्य तैयार करते हैं और हमारे निष्ठावान ग्राहकों को मानसिक

शांति प्रदान करते हैं।

इनके चेहरे पर जो चमक कार्यालय अधीक्षण अभियनता, राज. राज्य कृषि विषणन बोर्ड, किसान भवन लालकोढी वृत्त-अयपुर नर्यान्य: ८६३ दिनांक: - 14.08.2023

विभिन्न चन्द्रक व भवन निर्माण कार्य एवं मत्मिन के कार्य बण्ड सीकर, टी. एम. जयपूर, दोना एवं जवपुर प्रथम के गाजि रू. 10.34 लाख से गाजि रू. 437.75 लाख कुल गाजि रू के 50 कार्यों को अर्जन लाईन विवर्ड है, पोक्यूपपेट (mww.eponcejasthae.gov) कोणी में पंजीकृत विवर्ध में आमंत्रित की जाती है। विवर्ध में मंबधिन विस्तृत विवरण व www.agriculture. rajasthan.gov.in/rsamb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सव ।विजयका UBN No. AGM2324WS0B00440 संUBN No.AGM2324WS0B00489 है।





गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाए ndy IDH ke dn हर रोज - सातो दिन तारा सस्थान क नेत्र चिकित्सालय तारा नेत्रालय में निःशल्क

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

गर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निम्नतिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के ति ो कि निविदा प्रमत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्र

डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है

पवित्र सावन मास की आखिरी सोमवार पर जहां शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी तो वही दान पण्य के साथ ही सेवा कार्य , वालों ने भी जमकर सेव की। इसी कड़ी में नीम फाउंडेशन उदयपुर की ओर से शहर के शिक्षा भवन चौराहा फ्ॉलोथोसिफिकल सोसायटी पर बच्चों को फल

नीम फाउंडेशन की फाउंडर रोशनी ने कहा कि पवित्र सावन के अंतिम सोमवार को जहां शिवालयों में भक्त दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, वही उसके साथ इन बच्चों को फल एवं अन्य सामग्री वितरित कर जो सकन मिला है वह बेहद खास है। साथ ही जब इन बच्चों को कोई भी कुछ बांटने के लिए आता है,,तो

विड आमन्त्रण सूचना संख्या 07/2023-24

Extract of Financial Results for the Quater ended June 30, 2023								
Standalone	Rs. in Lakhs							
Particulars	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023				
Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	11.97 5.34	30.36 1.87	1.51 1.42	33.45 4.55				
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	5.34	1.87	1.42	4.55				
Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10)- per Equity Share)	609.62	609.62	609.62	609.62				
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 101- each)								
Basic:	0.09	0.03	0.02	0.07				
Diluted: Earnings Per Share (after extraordinary litems) (of Rs. 101- each)	0.09	0.03	0.02	0.07				
Basic :	0.09	0.03	0.02	0.07				
Diluted :	0.09	0.03	0.02	0.07				



Toll-Free No: 1800 31 31 31 i w

236, सेक्टर 6, हिरण मगरी (जे.बी. हॉस्पीटल के पास वाली गली) उदयपुर - 313002 (राज.) भारत (+91) 9549399993, 9649399993

सावन के आखिरी सोमवार बच्चों को फल वितरण दिखाई देती हैं,, जो खुशी दिखाई देती है,,और जो बताया कि इस फल वितरण उदयपर, 14 अगस्त। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच भंवर अपनापन दिखाई देता है वही

वास्तव में आपके द्वारा किए गए

पण्य कर्मों का एक असली फल


विदा कार्यो की कुल लागत गिनलाईन निविदा प्रपत्र गुजनलोड/अपलोड करने की अवधि

Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी

वितरित किए गए।

स्तत विवरण वेबसाईट urban.ra asthan.gov.in पर देखा जा सकता है । स्वाधीनता दिवस की



मेडिकल सर्जिकल


६९, आई ब्लॉक, सेक्टर-१४, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.) निवारा : ५४, आई ब्लॉक, रोक्टर-१४ हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)



सुनिल गोयल एम.एस. सर्जरी

फोन नं: 0294-2640852 (हॉ.), 2640251, 3291459 (नि.) मोबाईल : 94141 66785

E-mail: karunagoyal@hotmail.com, rajhospital20@yahoo.com





SENIOR SECONDARY SCHOOL Pratap Nagar, Udaipur-313001

SENIOR SECONDARY SCHOOL Purohito ki madri, Udalpur, Ph 2491383

पर भण्डार के सभी सदस्थों एवं

उपमोक्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ







उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि.

शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज.) अश्विनीकुमार वशिष्ठ 🗎 आश्रतोष भट्ट

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया

उदयपर, 14 अगस्त। आकाशदीप स्टडी होम विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पर्व संध्या पर कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ संस्थापक हीरालाल सोनी ने किया।

... कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से

उदयपुर, 14 अगस्त। अखिल

विश्व गायत्री परिवार की यवा शाखा

'दिया उदयपुर' द्वारा स्वतंत्रता दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में अंतर

विद्यालय समूह गान प्रतियोगिता राष्ट्र

वंदना 2023 का आयोजन गायत्री

रागिनी दवे जोशी ने बताया राष्ट्र भक्ति

और राष्ट्र जागरण के भाव से

ओतप्रोत स्कूली बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 14

स्कूलों में भाग लिया। जूनियर वर्ग में

का बहुमान सम्मान किया जाएगा।

सक्रिय सहयोग दिया।

आजादी से पूर्व जन्में सदस्यों का बहुमान

द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपने वरिष्ठ माननीय सदस्यों

वे सदस्य हैं जिन्होंने आज़ादी के पूर्व जन्म लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के समर्पण को विविध रूपों में

निहारा और बनती कोशिश उनका साथ देते उनके कार्यक्रमों, गतिविधियों, प्रभातफेरियों आदि में अपना

उदयपुर, 14 अगस्त। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उदयपुर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित क्लब 'फील्ड क्लब' की कार्यकारणी

क्लब सचिव उमेश मनवानी ने बताया कि ये

क्लब उपाध्यक्ष राकेश चोर्डिया ने बताया कि

कार्यक्रम संयोजक श्रीमती

शक्तिपीठ में किया गया।

पांचवीं तक के विदयार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी जिसमें देशभक्ति, गीत, नृत्य एवं कविताएं प्रस्तुत की गई।

अन्त में उप प्रधानाचार्य श्वेता आमेटा ने विद्यार्थियों को देशवासियों के प्रति दया, करुणा,

परोपकार की भावना रखते हुं देश समूह गान प्रतियोगिता राष्ट्र वंदना २०२३ का आयोजित

सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 5 ने प्रथम,

सेंटल एकेडमी सेक्टर 3 ने द्वितीय व

तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीनियर वर्ग में सेंट एंथोनी ने प्रथम, सेंट्रल एकेडमी सेक्टर 3 ने द्वितीय व गुरु नानक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने ततीय स्थान प्राप्त किया।

गया व सभी

सर्टि फिकेट

पांडे, सुश्री किरण जोशी व भरत बॉम्बारिया थे। कार्यक्रम 'दिया आलोक उच्च माध्यमिक विद्यालय ने उदयपुर' महिला विंग के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। महिला बिंग में इसमें आरुषि श्रीमाली, अंजली शर्मा, अंकिता

कनिष्का नागर, रेखा असावा, ऋतु राठौड, सनीता राव षामिल थे कार्यक्रम में राजेंद्र त्रिपाठी, रमेश असावा, महेश जोशी, शिव सत राव आदेश भटनागर, नरेंद्र चौधरी विवेक दवे. हरीश सालवी. हेमांग जोशी, परमेश पांडे, चयन त्रिपाठी, आदित्य कमार, विशाल जोशी, प्रणय

विजेता टीमों को ट्रॉफी व मेडल दिया जोशी, मितुला पांडे, पायल जोशी, त्रिपाठी का पूरा सहयोग रहा। कार्यालय ग्राम पंचायत दूस डांगीयान,

के विकास को अपना योगदान देने के लिए पेरित किया

कार्यक्रम के निर्णायक विनोद

पंचायत समिति वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.) कमांक:- 13 दिनांक:-08.08.2023

-: ई निविदा सुचना संख्या : 01/2023-24 :-ग्राम पंचायत टूस डांगीयान में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यों हेत निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 20.08.2023 को साय 6:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व

eproc.rajathan.gov.in पर देखी जा सकती है। UBN No. - ZUD2324GLOB00677

सरपंच ग्राम पंचायत दस डांगीयान,

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रस डांगीयान. प.स. वल्लभनगरं, जिला उदयप्र प.स. वल्लभनगरं, जिला उदयप्र

यह बड़े हर्ष एवं गौरव का उझेखनीय अवसर है कि क्लब के 127 वरिष्ठतम सदस्यों में से 106 सदस्य वर्तमान में उदयपुर में हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। इन 106 सदस्यों को शॉल, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर समानित किया जाए आरके स्तामी लिमिटेड ने सेही

डाफ्ट रेड हेरिंग

प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) उदयपुर, 14 अगस्त। रचनात्मक, मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च सर्विसेज के लिए एकल-खिडकी समाधान की पेशकश करने वाले सबसे बड़े भारतीय बहुसंख्यक स्वामित्व वाले इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मर्विमेज पोवाददर आरके स्वामी लिमिटेड ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड सेबी के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग पॉस्पेक्टस (दीआरणचपी) दायर किया रु.2,150 मिलियन तक एग्रीगेटिंग का एक नया इत्रयू और सेलिंग शेयर होल्डेर्स द्वारा 8,700,000 इक्रिटी शेयरों तक की विक्री का प्रस्ताव शामिल है। विक्री के प्रस्ताव में श्रीनिवासन के स्वामी द्वारा 1,788,093 इक्किटी शेयर, नरिसम्हन कृष्णास्वामी द्वारा 1.788.093 इकिटी शेयरण इवानस्टन पायनियर फंड एल.पी. द्वारा ४,४४५,७१४ इक्रिटी शेयर और प्रेम मार्केटिंग वेंचर्स एलएलपी द्वारा 678,100 इक्रिटी शेयर शामिल हैं। आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग कार्यशील पंजी के वित्तपोषण डिजिटल वीडियो सामग्री तैयार करने वाले स्टूडियो की स्थापना के लिए किए जाने वाले पंजीगत व्यय की फाइनेंसिंग, आरके स्वामी लिमिटेड के आईटी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के वित्तपोषण, सामग्री सहयक कंपनियां होगा रिमर्च और होगा कारणार इक्रिटी, नए ग्राहक अनुभव केंद्रों और कंप्यूटर एडेड टेलीफेन साक्षात्कार केंद्रों के साथ-साथ सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की फड़नेंसिंग के लिए


एशिया पैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः तृतीय तल, मिराज परिसर, ऊपर की ओडन. नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान, भारत, पिन–313301 CIN: L74950RJ1985PLC003275

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनकेक्षित वित्तीय परिणाम का स

	र लाख में ईपीएस को छोउ रागान निगाती प्राप्त				
	TT	रागारल जिलाही			
विवरण	जून-23	मार्च-23	जून-22	मार्च-23	
	अंनकोक्षित	अंकेशित	अंनकेक्षित	अंकेशिव	
परिचालनों से कुल आय	1.00	1.20	1.50	5.20	
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक और / या असाधारण मदो से पूर्व)	14.87	7.66	5.08	27.12	
अनथि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (आपसादिक और / या असाधारण मदो के बाद)	14.87	7.66	5.08	27.12	
अवधि के लिए कर उपरांत शुद्ध लाभ / (हानि) (आपवादिक और / या असाधारण मदो के बाद)	8.50	7.34	2.21	21.12	
अवधि के लिए कुल व्यापक आय। अवधि के लिए लाभ (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय	8.50	7.34	2.19	21.10	
(कर उपरांत) सहित।					
समता अंश पूँजी	263.74	263.74	263.74	263.74	
रांचन (गुजर्यून्नांकन रांचन को खेदकर) मूर्व वर्ष के लिए लेखानरीक्षित्र बुलव- मन में दिखाए गए अनुसार	-	-	-	1643.7	
प्रति अंश अर्जन (ईपीएस) (रु 10 / - प्रत्येक)					
मूल	0.32	0.28	0.08	0.80	
तनुकृत	0.32	0.28	0.08	0.80	
टिप्पणी :					

१. ज्यारोक्त चरिणाम, भारतीय प्रतिभूति और विगिम्ब बोई (पुजीवब्र्स एवसकेंजों में दाखिल प्रैमासिक विनीत परिणामों के विस्तृत प्रारूप का www.bsisnidis.com और कंपनी की वेबसाइट www.asispacklit.com 2.30 जुन. (20.3 को सामाण उर्दारोक प्रतिस्कृत के निर्देश को स्थान उर्दारोक प्रतिस्कृत के निर्देश को सामाण उर्दारोक प्रतिस्कृत के निर्देश को स्थान उर्दारोक के स्थान उर्दारोक के स्थान के स्





ः शुभेक्षुः उदयलाल आजना सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री राजस्थान सरकार

मनोहरलाल आजना

FINANCIAL EXPRESS

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD. CIII: L65929DL1991PtC043182 Regd. Office: D-28, First Flox; Greater Kallash Enclove - I, New Delhi - 110 048. Tel : 011-49025758, Fax : 011-41633812, Web : www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalhanco

	Unaudited	Audited	Unaudited	
PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	
Total income from operation (net)	0.00	2.2	0.95	
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exception items	(6.50)	-0.4	(4.31)	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (before exception items)	(6.50)	-0.4	(4.31)	
Net Profit / (Loss) for the period after tax, exceptional items	(6.50)	-0.4	(4.31)	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/[Loss] for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6.50)	-0.4	(4.31)	
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04	
Reserves excluding revaluation reserves (i.e Other Equity)	-	-	-	
Earning Per Share (face value ₹10/- each) — Basic & Diluted	(0.12)	-0.01	(0.08)	

CORDS® CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74999DL1991PLC046092

Regd. Off.: 94. 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg.

Near Okhla Industrial Area Phase. III Near Okhla Industrial Area Phase-III, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, TeL: 011-40551200, Fax No.: 011-40551281 a: www.cordscable.com, E-mail: ccil@cordsca

Old Ishawa Nagar, New Dehi-20.

Website: www.cordicable.com. E-mail: colligoratiosible.com

Notice: 101-1405/1207, PAN. col.11-405/51208.

Website: www.cordicable.com. E-mail: colligoratiosible.com

2200 ANNUAL GENERAL ME ETING OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY TO BE.

HELD TIRRUDUN'DOLO COMER ESCURION OF THE COMPANY OF THE COMPA

us regularero men e- mai adoresses with the Company can still cast their us trough remote e- unting after 'obtaining the login ID and password for rem e- voting by applying to Link Intime India Pvt Ltd at enotices@inkinime co.in onto India Co.in and India Co.in and India Co.in and India Co.in onto India Co.in and India Co.in and India Co.in and India Co.in libitor of the ACM.

Notice of the ACM. Withmehrs may note that the Notice of AGM will be made available on the Company's webbils 'www.cordscable.com and on the webbils of Company's Registrar and Transfer Agent, Must Link Intime Index Put LLS. at https://dischools.indicativole.linkintime.coi. and shall also be discerninated on the stock exchanges ic. National Stock Exchange of India Limited and SSE Limited at www.nsteindia.com and www.berledia.com,

he Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has mandated furnishing NN, KYC details (i.e., Postal Address with PIN Code, email address, mobile numb bank account details) and nomination details by holders of securities in prescribed forms. On or after October 01, 2023, in case any of the obver clied document forms. On or after October 01, 2023, in case any of the obver clied document details are not evaluable in the Folio(s), in terms of SEBI circulars, RTA shall be constrained to freeze such Folio(s). Relevant prescribed by SEBI in this regard are available on the website of the Company at http://www.cordiscable.com/

e.php. ares in demat form are requested to update their email addres

Ventrolers including states and entitle rule are requested to uponer time entities and the first Flectronic Bank Mandate and other KYC Details with their Depository. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the CERL Clearly.

olders/ members have any queries, they may send an email to intime.co.in or contact on:-Tel 022-49186175. For Cords Cable Industries Limited

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
418, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi 110034
SYMBOLIC POSSESSION NOTICE
baing the Julipoired Officer of the Nikmland A MOISMO FRANCE I MITTED under Sacrutárization and

last date point in the Se of the Security interest procession and the security of the Security interest procession and the security interest procession and the proce

Sr.	No. Guarantors Date of Posses	Demand Notice Date	Amount	B
No.		Date of Possession	Outstanding	Details of Immovable Property
1		26-04-2023	₹ 67,31,463/- as on	House of area measuring 250Sq. Yards, Aaraji Jarai Khevat No. 96, Khata No. 95, Mu. No.16, Kila No.
	Mr. Manish Kumar & Mrs. Suman Singh, both at: House No 29/4, Ward No. 24, Village Garouli Khurd, PO Basai Garouli Khurd, Gurgaon, Haryana 122001	tanish Kumar & Mrs. Suman J. both at: House No 29/4, Ward J. Village Garouli Khurd, PO Basai M. Khurd, Gurgaon, Haryana		Nevera No. 39, Khata No. 39, Mu. No.16, Kila No. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,

AKARA CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

CIN: U74110DL2016PTC290970

Sr.	Particulars		Quarter ended	1	Year ended
No.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from Operations	21,353.27	12,650.50	2,814.24	21,692.29
2	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax, Exceptional and/or extraordinary items*)	2,162.94	1,921.92	535.71	3,981.70
3	Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or extraordinary items*)	2,162.94	1,921.92	535.71	3,981.70
4	Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (After Exceptional and/or extraordinary items*)	3,340.87	1,583.72	385.73	2,590.45
5	Earnings per equity share #	The second	200000	500000	ğ
	Basic (₹)	1.24	0.64	0.17	1.11
	Diluted (₹)	1.24	0.64	0.17	1.11

we unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of x at their respective meetings held on 1et August, 2023.

We see an extract of the detailed forms of Infrancial results filed with the BSE limited under regulation 52 of the Doblastions and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, for the quarter and year ended 30th June, 2023, and at the quarter ended financial results are available on the weblies of the BSE limited at <u>www.brestina.com</u>, and and/or extra ordinary items adjusted in the statement of Profit and Loss in accordance with NO-A5 rules inchiever is applicable.

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar,
East of Kallash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2023

		Quarter Ended	1	Year Ended
PARTICULARS	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income From operation(net)	43.16	17.02	14,74	65.84
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	6.70	-8.05	-3.10	-20.80
Net Profit/(Loss) for the period after tax	6.70	-2.86	-3.10	-15.41
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	156.64	149.94	162,78	149.9
Earnings Per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)				
Basic and diluted (Rs.)	0.13	-0.05	-0.06	-0.2
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each				
Basic and diluted (Rs.) (EPS for the period not annualised)	1.13	-0.05	-0.06	-0.2

NOTES:

I. The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 12° Day of August, 2023.

2. No provision of text has been made for the interime precior in the books of accounted, with the Stock Exchange under Regulations 3 of SERB (Listing Didigations and Discisser Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange (www.bisendia.com) and on company's website www.gkoro.ulam.tdc.com) and on company's website www.gkoro.ulam.tdc.com).

By Order of the Board Company of the Board Committee of the Committee C

By Order of the Board For G.K. Consultants Limited (Divya Malini Gupta) Managing Director DIN: 00006225

SAI CAPITAL LIMITED CIN: L74110DL1995PLC069787

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI -110017 Email: cs@saicapital.co.in | Ph.: 011-40234681 | Website: www.saicapital.co.in

EXTRACT OF UN AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

	(Figures in Rs. Lacs)								
		STANDALONE			CONSOLIDATED				
Sr.		C	uarter Ende	ed	Year Ended	C	uarter End	led	Year Ended
No.	Particulars	30.06.2023 (Unaudited)		30.06.2022 (Unaudited)		30.06.2023 (Unaudited)		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income	0.00	0.33	0.00	0.33	399.33	446.61	382.14	1,594.62
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-14.97	-15.67	-12.50	-54.95	168.44	-252.00	233.57	517.30
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-14.97	-15.97	-12.50	-55.25	168.44	-252.30	233.57	517.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-14.97	-15.97	-12.50	-55.25	94.36	-252.63	144.04	259.74
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-14.97	-15.97	-12.50	-55.25	94.84	-252.47	144.04	259.87
6.	Equity Share Capital	287.93	287.93	287.93	287.93	287.93	287.93	287.93	287.93
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	Ι.			-563.63				35,336.60
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic:	-0.52	-0.55	-0.43	-1.92	3.20	(8.62)	4.90	8.81
	2. Diluted:	-0.52	-0.55	-0.43	-1.92	3.20	(8.62)	4.90	8.81

Date: 14/08/2023 Place: New Delhi

financialerp.epar.in

- tes:
 The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of the Stock Exchange i.e., www.bsicapital.co.in
 The above Un-audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2023. Limited Reviews of these results have been carried out by the Statutory Auditors in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

 For Sai Capital Limited

 For Sai Capital Limited

For Sai Capital Limited Sd/-Dr. Niraj Kumar Singh Chairman & Managing Director

ASIA PACK LIMITED REGISTERED OFFICE: 3^{op} FLOOR, MIRAJ CAMPUS, UPER NI ODEN, NATHDWARA, RASAMANO, RAJASTHAN, INDIA, PIN-313301 CIN. 12/4950/11/985/C003275

Particulars			Rs. in Lakh	s except EPS
	Q	arter Ended		Year Ended
	Jun-23	Mar-23	Jun-22	Mar-23
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	1.00	1.20	1.50	5.20
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	14.87	7.66	5.08	27.12
Net Profit ((Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14.87	7.66	5.08	27.12
Net Profit) (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.50	7.34	2.21	21.12
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit] (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	8.50	7.34	2.19	21.10
Equity Share Capital	263.74	263.74	263.74	263.74
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				1643.21
Earnings per Share (EPS) (of Rs 10/- each)	1			
Basic	0.32	0.28	0.08	0.80
Diluted	0.32	0.28	0.08	0.80

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under ion 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement ions, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites vi eindia.com and on the Company's website viz. www.asiapackitd.com

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

BAJAJ HOUSING FINANCE: LIPIA 1 ELP
CORPORATE OFFICE: Certainum IT Puts 2 Buildings in Micro, Rajouni Magna; Pune, Maharashtra 11014
Branch office: 14th Floor Agarvall Metro Heights Netail Subhash Paliace Pitampura New Delhi -110034
POSSESSION NOTICE

U/s 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest AC 2002-Rule 6-1/0 of the Security Interest (Enforcement) Mess 2002 (Appendict IV)
Whereas, he undersigned being the Aufortised Officer of Ms BAJAJ INCUSING FINANCE LIMITED (BRF1) under the Securitization as
Reconstruction of Financial Assists and Enforcement of Security Interest CAVID and in securicy operate contraction of Security
Merceas, he undersigned being the Aufortised Officer of Ms BAJAJ INCUSING FINANCE LIMITED (BRF1) under the Securitization in
Reconstruction of Financial Assists and Enforcement of Security Interest CAVID and in securicy operate contraction of Security
Reconstruction of Financial Assists and Enforcement of Security Interest CAVID and in security (I). Demonstruction (Security Interest)
Reconstruction of Financial Assists and Enforcement of Security Interest Officer (I) and the Advanced Interest (I) and the Ad

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (LAN No, Name of Branch)	Demand Notice Date & Amount Posse			
Branch : DELHI (LAN No. H401ECN0379132, H401FLP0337726) 1. SANJAY SRIVASTAV (Borrower) 2. S S ATR HYDRO POWER (Through its Proprietor) Authorised Signatury/Managing Director) (Co-Borrower)	All That Piece And Parcel Of The Non- agricultural Property Described As: Front Side Portion Of Entire First Floor Without Roof Rights Of Property Bearing No. 12 Area Measuring 70 Sq. Yds., Le. 58.527 Sq. Mrs., Out Of Khasra No. 4316/45/, Situated In The Area Of Village Azadpur Colony Known As Kowal Park Edn On Mandi Marg Delh; East - Boad 15 Ft, West - Boad 30 Ft, North - Other Property No. 11, South : Other Property No. 11	Rs. 28,78,352/- (Rupees Twenty Eight Lac Seventy Eight Thousand Three Hundred Fifty Two Only)	09-AUG-2023	

3. RANDEET KUNAR SINHA (Co-Borrower)
1. 8.3 Abt II No. 12 Ground Floor, Front Side Mendi Mary Kewal Park Edn, Delhi, Delhi-110033
Date: 15 Aug 2023 Place: - DELHI/NCR Authorized Officer Bajaj Housing Finance Limited

FRUITION VENTURE LIMITED

Regd. Office: 1301, Padma Tower-I Rajendra Piace, New Delhi-110008 New Delhi 110008 Phone: 011-2371071 , Fax: 011-45084598 Phone: 011-2371071 , Fax: 011-45084598 Website: www.fruitionventure.com, Cir. Emilics@firtionsorture.com, Cir. L'74899DL1994PLC058824 EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023 Standalone						
	l i	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended	
Sr.	Particulars	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
No.	66.0000000000	(un-Audited)	(Audited) (un-Audited)	(un-Audited)	(Audited)	
1	Total Income from operations	2.57	5.09	80.46	442.91	
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	8.46	(6.84)	(34.51)	(15.15)	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	13.86	5.69	(27.59)	8.32	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16.91	(2.45)	(33.48)	(4.62)	
5	Equity paid up share capital	400.00	400.00	400.00	400.00	
6	Other Equity as at balance sheet date 31.03.2023	247.37	233.51	197.60	233.51	
7	Earnings per share (Quarterly not annualised):					
	Basic (₹)	0.35	0.14	(0.69)	0.21	
	Diluted (₹)	0.35	0.14	(0.69)	0.21	

Place : New Delhi Date :14th August, 2023 Nitin Aggarwal Managing Director

THE BIRLA COTTON SPINNING & WEAVING MILLS LTD.

Corporate Identity Number: L65100DL1920PLC099621

Regd.Office: Hindustan Times House, 9th Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001

Phone: 011-65561206. Email: secretarial.ht@rediffmail.com, Website: www.birlacotton.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In lakhs)

S.		Thre	Year Ended		
No.	Particulars	30.06.2023 Unaudited		30.06.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations (Net)	132	152	82	497
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary Items) #	122	139	72	451
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary Items) #	122	139	72	451
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary Items) #	93	113	20	316
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit*(-) Loss for the period (after tax) and other comprehensive Income (After tax)) *	517	225	(134)	590
6	Equity Share Capital	114	114	114	114
7	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations-not annualised)		700		
	Basic	8.15	9.90	1.75	27.64
	Diluted	8.15	9.90	1.75	27.64

- The above unsudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 have been reviewed by the Audit Commit approved and taken on record by the Board of Direction at their respective meeting held on August 14, 2023. The Statistry-Auditors have careful of all Infline Review of the above Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023. The above financial results have been propared in accordance with the recognition and measurement principles as prescrit tools SS 11 testim Financial Reporting?

- acuses. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2023, field with the Sto Exchange under Requistors 3 of the SEBI (Listing Obligations and Dicisiouse Requirements) Regulations, 2015. The full format he unsuded financial results for the quarter needed, units 20, 2021 dainy with review proof or the Studicky Auditors is available the unsuded financial or the studies of the studies of the studies of the studies of the corresponding quarter have been regrouped inclassified, whenever necessary to confirm to current quart candidation representations.

(Virender Kumar Charoria DIN 00046895

--00

New Delhi

-